

रुनझुन बाजे घुँगरा

रुनझुन बाजे घुँगरा, घोड़लिया रा बाजे पोड जी
लीले री असवारी आवे, आवे रामापीर जी...

केसरिया ज्या मोह बन्यो, ज्यारे दूरें तार हज़ार जी
अरे पीछम धरा रो बादशाह, म्हारो रामो राज कवार जी

लिलो घोड़ो नवलखो, ज्यारे मोत्या जड़ी लगाम जी
घोड़लिया पे चढ़िया रामदेव, बाबो रुनिचारो शाम जी

हरजी भाटी री विनती , बाबा थासु लागी प्रीत जी
गोपालो थारे शरने आयो, गावे थारा गीत जी

<https://www.bhajanganga.com/bhajan/lyrics/id/1502/title/runjhun-baje-ghungra-ghodliya-baje-pod-ji-ramapeer-Rajasthani-bhajan>

अपने Android मोबाइल पर [BhajanGanga](#) App डाउनलोड करें और भजनों का आनंद ले |